

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.5-1/2014-हिं.अ.

दिनांक: 22.08.2014

परिपत्र

**विषय : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हिंदी पखवाड़े
के दौरान हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन संबंधी।**

संस्थान में निदेशक महोदय की अनुमति से दिनांक 01.09.2014 से 15.09.2014 तक "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया जा रहा है। "हिंदी पखवाड़े" के दौरान संस्थान के संकाय-सदस्यों/अधिकारियों/ कर्मचारियों/ छात्र-छात्राओं के लिए निम्नानुसार हिंदी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है:-

क्र.सं.	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान
1	श्रुतलेख प्रतियोगिता	01.09.2014	डॉ.रामालिंगास्वामी सभागार
2	संकाय-सदस्यों एवं अधिकारियों (समूह 'क') हेतु विशेष निबंध प्रतियोगिता (क) हिंदी भाषी हेतु (ख) अन्य भाषा-भाषी हेतु	02.09.2014	
3	निबंध प्रतियोगिता (क) हिंदी भाषी स्टाफ हेतु (ख) अन्य भाषा-भाषी स्टाफ हेतु	03.09.2014	
4	हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता	04.09.2014	कॉन्फ्रेंस हॉल
5	संस्थान के छात्र-छात्राओं हेतु विशेष निबंध प्रतियोगिता (क) हिंदी भाषा-भाषी छात्रों हेतु (ख) अन्य भाषा-भाषी छात्रों हेतु	05.09.2014	डॉ.रामालिंगास्वामी सभागार
6	अनुवाद प्रतियोगिता	08.09.2014	
7	वाद-विवाद प्रतियोगिता (क) हिंदी भाषा-भाषी स्टाफ हेतु (ख) अन्य भाषा-भाषी स्टाफ हेतु	09.09.2014	
8	काव्य-पाठ प्रतियोगिता	10.09.2014	

उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताएं अपराह्न 2.30 बजे से प्रारंभ होंगी तथा डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रवेश जैवभौतिकी विभाग की ओर से है।

जारी.....2/-

उपर्युक्त प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए निम्नानुसार नकद पुरस्कार होंगे:-

क्र.सं.	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	प्रथम पुरस्कार	₹5,000/- एक पुरस्कार
2	द्वितीय पुरस्कार	₹3,000/- एक पुरस्कार
3	तृतीय पुरस्कार	₹2,000/- एक पुरस्कार
4	प्रोत्साहन पुरस्कार	₹1,000/- पांच पुरस्कार

उपर्युक्त हिंदी प्रतियोगिताओं में विजयी घोषित उम्मीदवारों को दिनांक 15.09.2014 को अपराह्न 03.00 बजे से डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में मुख्य अतिथि महोदय के कर-कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

अतः सभी केन्द्र-प्रमुख/विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण से अनुरोध है कि कृपया यह सूचना सम्बद्ध विभाग/अनुभाग/केन्द्र में कार्यरत सभी संकाय-सदस्यगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण/छात्रगण की जानकारी में ला दें ताकि इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक स्टाफ सदस्यगण भाग ले सकें।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए हिंदी अनुभाग से व्यक्तिगत रूप से अथवा फोन नं. 4863 अथवा 4403 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह./-

(राज कुमार)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:- सभी केन्द्र-प्रमुख/ विभाग/अनुभाग- अध्यक्षगण।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- कुल-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- प्रधानाचार्या, नर्सिंग कॉलेज, अ.भा.आ.सं.
- सभी नोडल राजभाषा अधिकारी।
- अध्यक्ष, स्टूडेंट यूनियन, अ.भा.आ.सं.
- प्रभारी अधिकारी(कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट में "इंट्रानेट" शीर्ष के तहत प्रदर्शित किया जाए।